



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 176]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 1979/वैशाख 3, 1901

No. 176] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 1979/VAISAKHA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का० आ० 220(अ).—मध्य प्रदेश राज्य के 10-सीधी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री सूर्यनारायण सिंह की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उम मदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से एतद्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 31 मई, 1979 (बृहस्पतिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और मद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे।

[सं० 100/म०प्र०-नो०म०/2/78(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd April, 1979

S.O. 220(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Surya Narain Singh, a member elected to that House from 10-Sidhi Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People

51 GI/79

(423)

Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before the 31 May, 1979 (Thursday), in accordance with the provisions of the said Act and the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/MP-HP/2/78(1)]

का० आ० 221(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र०-नो० म०/2/78(1), तारीख 23 अप्रैल, 1979 के अनुसरण में 10-सीधी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 30 अप्रैल, 1979 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 1 मई, 1979 (मंगलवार)

(ग) प्रत्यक्षताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 3 मई, 1979 (बृहस्पतिवार)

(घ) वक्त तारीख जिनको, यदि आवश्यक हो, तो 27 मई, 1979 (रविवार) मनदान होगा।

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा। 31 मई, 1979 (बृहस्पतिवार)

एतद्वारा नियत करना है।

[सं० 100/म०प्र०-नो०म०/2/78(2)]

S.O. 221(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 10-Sidhi Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/2/78(1), dated 23 April, 1979 :—

- (a) 30 April, 1979 (Monday), as the last date for making nominations ;
- (b) 1 May, 1979 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 3 May, 1979 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 27 May, 1979 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 31 May, 1979 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MP-HP/2/78(2)]

क्रा० आ० 222(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म०प्र०-क्रा० सं० 2/78(1), तारीख 23 अप्रैल, 1979 के अनुसरण में 10-सीधी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वार्द्ध से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में पत्रद्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मन्दान होगा।

[सं० 100/म०प्र०-क्रा० सं० 2/78(3)]

क्रा० नागसुब्रमण्यम, सचिव

S.O. 222(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 10-Sidhi parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/2/78(1), dated 23 April, 1979.

[No. 100/MP-HP/2/78(3)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.